

राष्ट्रीय विकलांगता समन्वय अधिकारी कार्यक्रम दक्षिण-पश्चिम सिडनी और पश्चिम सिडनी क्षेत्र



NDCO कार्यक्रम विकलांग लोगों की मदद करने के लिए रणनीतिक रूप से कार्य करता है, और क्षेत्रीय आधारित NDCO के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से तृतीयक शिक्षा तथा अनुवर्ती रोजगार में भाग लेता है। NDCO प्रणालीगत बाधाओं को कम करने, आसान पारगमन को सुगम करने, लिंक बनाने और शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के क्षेत्रों के बीच सेवाओं का समन्वय करने के लिए हितधारकों के साथ काम करते हैं।



NDCO हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करते हैं: विकलांग लोग और उनके परिवार; स्कूल (पब्लिक, कैथोलिक और स्वतंत्र); तृतीयक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाता; रोजगार सेवाएँ; नियोक्ता; समुदाय और विकलांगता सेवाएँ; तथा अन्य सरकारी योजनाएँ। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित है।



NDCO कार्यक्रम के दक्षिण-पश्चिम सिडनी और पश्चिम सिडनी क्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी समानता और विविधता इकाई द्वारा आयोजित है।

NDCO विकलांग लोगों को कौन सी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं?

- लोगों को विभिन्न पोस्ट-स्कूल शिक्षा, प्रशिक्षण, और रोजगार विकल्पों तथा उन तक पहुँचने के तरीकों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाते हैं, उदाहरण के लिए छात्रों और परिवारों के समूहों के सामने प्रस्तुति द्वारा, और कार्यक्रम और मंच चलाकर
- विकलांग लोगों को उनके अधिकारों, पात्रताओं, प्रदाता दायित्वों, सेवाओं और उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित करते हैं, ताकि सफल पारगमन करने तथा तृतीयक शिक्षा और बाद में रोजगार में भागीदारी में उनकी मदद की जा सके
- व्यक्तियों और संगठनों को स्थानीय सहायता सेवाओं का संदर्भ देते हैं और उनसे जोड़ते हैं तथा जहाँ भी आवश्यक हो जारी सहायता प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं

NDCO और कैसे सहायता करते हैं?

- स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा प्रदाताओं, उच्च शिक्षा प्रदाताओं और रोजगार सेवाओं एवं विकलांगता कार्यक्रमों के प्रदाताओं के बीच सेवाओं और संबंधों का समन्वय करते हैं
- ऐसे स्थानीय नेटवर्क स्थापित करते हैं या उनका समर्थन करते हैं जो स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार सेवाओं में कार्यरत लोगों के बीच संचार, सहयोग और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हैं
- शिक्षा प्रदाताओं और नियोक्ताओं को छात्रों की पारगमन योजना में बेहतर सहायता करने और तृतीयक शिक्षा एवं रोजगार में भागीदारी में मदद करने के लिए व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं
- ऐसी प्रणालीगत बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए परियोजनाओं और साझेदारी की सुविधा देते हैं जो विकलांग लोगों के तृतीयक शिक्षा और रोजगार में सुगम पारगमन को प्रभावित करती हैं

आपकी सहायता के लिए संसाधन

- हमारी **Get Ready for Study and Work** वेबसाइट विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध पोस्ट-स्कूल विकल्पों, अध्ययन और कार्य के दौरान उपलब्ध उचित समायोजनों के बारे में जानकारी तथा प्रकटीकरण एवं अन्य कई संसाधनों की कड़ियों से भरपूर है। हमारी वेबसाइट पर आज ही जाएँ: www.westernsydney.edu.au/ndco
- **अपना रास्ता चुनना। प्रकटीकरण: It's a Personal Decision** एक ऐसी वेबसाइट है जो विकल्पों और तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए छात्रों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में बताती है। देखें: www.westernsydney.edu.au/ndco/disclosure
- हमारी वेबसाइट **Get Ready for Uni** में uni के लिए तैयार होने, पाठ्यक्रम चुनने, uni का चयन करने के तरीकों, उपलब्ध वैकल्पिक तरीकों तथा विकलांगता सहायता के बारे में जानकारी शामिल है। वेबसाइट देखें: www.westernsydney.edu.au/ndco/getready
- **Education to Employment Package** एक ऐसी वेबसाइट है जो विकलांग तृतीयक और स्नातक छात्रों तथा उनके नियोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं पर लक्षित है। अधिक जानकारी के लिए www.westernsydney.edu.au/ndco/employment पर जाएँ।



और अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने स्थानीय NDCO से संपर्क करें

South-Western Sydney Region

Gillian Hilt or Nicole Ison

University of Western Sydney

Campbelltown Campus

फोन: 4620 3175 या 4620 3246

ईमेल: g.hilt@westernsydney.edu.au या

n.ison@westernsydney.edu.au

Western Sydney Region

Bernard Sobiesiak

University of Western Sydney

Werrington North Campus

फोन: 9678 7376

ईमेल: b.sobiesiak@westernsydney.edu.au

आपका क्षेत्र नहीं है? अपना स्थानीय खोजने के लिए www.education.gov.au/ndcoprogramme देखें